



भारत का राजपत्र The Gazette of India.

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 352]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 1981/कार्तिक 11, 1903

No. 352]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 1981/KARTIKA 11, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1981

सं० का० नि० 570(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधि-
नियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष
सं० 84. 66(i) की मद (घ) की उपमद (6) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते
हुए भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं०
269-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 का निम्नलिखित और संशोधन
करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० (8) और उससे संबंधित प्रविष्टियों
के पश्चात् निम्नलिखित अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(9) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कच्चे तेल और गैस
के विदोहन और प्रवाह को मानिटर करने के लिए कम्प्यूटर और तुरसंचार
परियोजना—

“परियोजना टिटन” ।

[सं० 234/81—सीमाशुल्क/का० सं० 355/120/81—सीमाशुल्क I]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 2nd November, 1981

G.S.R. 570(E).—In exercise of the powers conferred by
sub-item (6) of item (d) of Heading No. 84.66(i) of the First
Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975),
the Central Government, having regard to the economic
development of the country, hereby makes the following
further amendment in the notification of the Government
of India, in the Department of Revenue and Banking No.
269-Customs, dated the 2nd August 1976, namely :—

In the said notification, after Serial No. (8) and the
entries relating thereto the following shall be inserted,
namely :—

“(9) Computer and Telecommunication Project for moni-
toring of exploitation and flow of Crude and gas.
by Oil and Natural Gas Commission—Project
TITAN.”

[No. 234/81-Custom/F. No. 355/120/81-Cus. I]

सं० का० नि० 571(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधि-
नियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने
पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, संघटकों और उप-समंजनों

को जब उनका भारत में आयात, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा, कच्चे तेल और गैस के विद्योहन और प्रवाह को मॉनिटर करने के लिए उपस्कर का विनिर्माण करने के लिए, कंप्यूटर और दूर-संचार परियोजना के अपतट प्रतिष्ठानों का प्रवाह करने के लिए किया जाए, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से और द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात्:—

- (1) आयातकर्ता, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से इलैक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित इस भाग का एक आवश्यकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि उक्त उपस्कर के विनिर्माण के लिए उक्त संघटक और उप-समंजस अपेक्षित हैं।
- (2) आयातकर्ता, उक्त संघटकों और उप-समंजसों के वास्तविक उपयोग का उक्त उपस्कर का विनिर्माण करने वाली यूनिट से इलैक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है।
- (3) आयातकर्ता, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से इसके अपतट प्लेटफार्म पर उक्त उपस्कर की प्राप्ति को दक्षित करने वाला इलैक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है।
- (4) आयातकर्ता, आयातित संघटकों और उपसमंजसों की ऐसी मात्रा की बाबत, जिसके लिए शर्त (2) और (3) में उप-दक्षित संपूर्ण उपयोग प्रमाणपत्र सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष पेश नहीं किया जाता है, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रकम के लिए जो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, मांग पर ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि इसमें अंतर्विष्ट छूट न की गई होती, और आयात के समय पहले ही संदेत शुल्क के अंतर के बराबर रकम का संदाय करने का वचनबद्ध करते हुए एक बंधपत्र निष्पादित करता है।

2. यह अधिसूचना 31 अक्टूबर, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है लागू होगी।

[सं० 235/81-सीमाशुल्क/फा सं० 355/120/81-सीमाशुल्क I]

G. S. R. 571(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts components and sub-assemblies for manufacture of equipment to be supplied to off-shore installations of Computer and Telecommunication Project for monitoring, exploitation and flow of crude and gas by Oil and Natural Gas Commission, when imported into India, from the whole of duty of Customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the whole of additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act, subject to the following conditions, namely:—

- (1) the importer produces an essentiality certificate from Oil and Natural Gas Commission duly countersigned by the Department of Electronics to the

effect that the said components and sub-assemblies are required for the manufacture of the said equipment;

- (2) the importer produces a certificate of actual utility of the said components and sub-assemblies from the unit manufacturing the said equipment duly countersigned by the Department of Electronics;
- (3) the importer produces a certificate from Oil and Natural Gas Commission showing the receipt of the said equipment on its off-shore platform duly countersigned by the Department of Electronics;
- (4) the importer executes a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, undertaking to pay, on demand, in respect of such quantity of imported components and sub-assemblies for which an end use certificate as indicated in conditions (2) and (3) above is not produced to the Assistant Collector of Customs, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st October, 1982.

[No. 235/81-Customs/F. No. 355/120/81-Cus. I]

सां० का० नि० 572(अ):—केन्द्रीय सरकार, वित्त-अधिनियम, 1981 (1981 का 16) की धारा 47 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 129 सीमाशुल्क तारीख 12 मई, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं० 202 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी अर्थात्:—

“203 सं० 235/81-सीमाशुल्क तारीख 2-11-1981।”

[सं० 236/81-सीमाशुल्क/फा सं० 355/120/81-सीमाशुल्क I]

के० चन्द्रमौलि, अवर सचिव

G.S.R. 572(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 47 of the Finance Act, 1981 (16 of 1981), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 129-Customs, dated the 12th May, 1981, namely:—

In the Schedule to the said notification, after Serial No. 202 and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be inserted, namely:—

“203. No. 235/81-Customs, dated the 2nd November, 1981.”

[No. 236/81-Customs/F. No. 355/120/81-Cus. I]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.